



## अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन ने दो विश्व स्वर्णिम कीर्तिमान बनाकर रचा नया इतिहास.....

अत्यंत हर्ष का विषय है कि लॉक डाउन के दौरान अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं | ऐसे में केवल एक माह में दो विश्व रिकॉर्ड बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने में सफलता पाई | राष्ट्रीय महामंत्री मंजू बांगड़ ने बताया है की अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से 25 मई 2020 को आयोजित ऑनलाइन **कर्म योग - हमारा प्रयास** प्रशिक्षण कार्यशाला में जूम एप द्वारा 27 प्रदेशों की 1000 महिलाओं को एक साथ प्रशिक्षण देकर यह गोल्डन रिकॉर्ड बनाया गया है | ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इतने बड़े स्तर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति की राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती नमता बियानी एवं उनकी टीम के प्रयासों से यह दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना | गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के एशिया हेड श्री मनीष विश्‍नोई ने ऑनलाइन मीटिंग में आकर वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट अध्यक्ष श्रीमती आशा माहेश्वरी व महामंत्री श्रीमती मंजू बांगड़ को प्रदान किए | इस कार्यक्रम में एलन संस्था के निर्देशक श्री गोविंद जी माहेश्वरी एवं गीता परिवार के राष्ट्रीय प्रमुख संजय जी मालपानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए | इन एतिहासिक पलों में राष्ट्रीय महिला संगठन की की विभूति आदरणीय रतनी मां काबरा तथा सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित थे | सभी राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष श्रीमती लता लाहोटी, श्रीमती गीता मूंदड़ा, श्रीमती विमला साबू, श्रीमती शोभा सादानी, श्रीमती सुशीला काबरा, श्रीमती कल्पना गगरानी ने सामाजिक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए व्यक्तित्व विकास सम्यक उद्बोधन से सब को प्रेरित किया | इस कार्यक्रम में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी समिति की राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती उर्मिला जी कलंत्री एवं उनकी टीम तथा श्रीमती गिरजा सरडा का विशेष सहयोग मिला | इससे पूर्व कोरोना क्राइसिस के ही दौरान जब सभी बच्चे अपने घरों में रह रहे हैं, ऐसे समय में बिना लक्ष्मण रेखा पार किए बच्चों को ई संस्कार वाटिका मस्ती की पाठशाला के माध्यम से जानार्जन करने हेतु 15 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई | राष्ट्रीय बाल एवं किशोरी विकास समिति की प्रभारी श्रीमती निर्मला मारू एवं सभी सहप्रभारी तथा गीता परिवार के सहयोग से 8 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रोजाना योग, प्राणायाम, संस्कृत के श्लोक, पठन, क्राफ्ट वर्क, प्रेरक कहानियों से वीडियो द्वारा 6 से 20 मई तक 15 दिन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई | विशेष सहयोगी के रूप में कार्यालय मंत्री मधु बाहेती ने बताया ई संस्कार वाटिका में 17 देशों के लगभग 35000 बच्चों ने भाग लिया इतनी अधिक संख्या में बच्चों की सहभागिता हेतु इस विशाल एवं अनूठे ऑनलाइन आयोजन के लिए भी अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा माहेश्वरी एवं राष्ट्रीय महामंत्री मंजू बांगड़ के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अनूठे एवं अभिनव प्रयासों की सभी ने सराहना की |

इस कार्यक्रम की सफलता में पांचो अंचल के पदाधिकारी श्री मती किरण लड्डा, श्री मती शशि नेवर, श्री मती मंजू कोठारी, श्री मती गिरजा सारडा, श्री मती मंगल मर्दा, श्री मती उषा करवा, श्री मती ममता मोदानी, श्री मती सविता पटवारी, श्री मती कलावती जाजू, श्री मती पुष्पा तोषनीवाल की भूमिका रही ।

राष्ट्रीय महामंत्री

मंजू बांगड़

अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन